

January 5, 2026

BSE Limited Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, Block G, Bandra - Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: Post Buy Back Public Announcement by eClerx Services Limited (“the Company”)

**Scrip Code: BSE - 532927
 NSE – ECLERX**

Please find enclosed copies of the Post Buy Back Public Announcement dated January 2, 2026 in relation to the Buy Back of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) fully paid-up equity shares of the face value ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each of the Company (“**Equity Shares**” or “**Shares**”) at a buy back price of ₹ 4,800/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred only) per Equity Share on a proportionate basis through tender offer route, which was published today i.e. January 5, 2026 in the following newspapers:

1. Business Standard (English and Hindi)- All India edition
2. Navshakti – Mumbai edition

The newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.eclerx.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,
For **eClerx Services Limited**



Pratik Bhanushali
VP-Legal & Company Secretary
F8538

Encl: As above

प्रतिस्पर्धा, स्टोर जोड़ने की रफ्तार से डीमार्ट पर दबाव

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 4 जनवरी

खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) के शेयर सितंबर की शुरुआत से 22 फीसदी गिरकर नौ महीनों के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों को लेकर कमजोर धारणा का कारण सेम स्टोर सेल्स (एसएसएस) में गिरावट, क्विक कॉमर्स कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से दबाव और नए स्टोर खोलने की धीमी गति है।

लिहाजा, आय अनुमानों में कटौती हुई है। ब्रोकरेज फर्मों ने भी शेयरों की रेटिंग घटा दी है। गिरावट के बावजूद शेयर वित्त वर्ष 2027 की अनुमानित आय के 68-75 गुना पर कारोबार कर रहा है। अगर परिचालन संबंधी आंकड़े बेहतर नहीं होते हैं या स्टोरों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है तो शेयर का दृढ़दर्श खराब बना रह सकता है।

एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के अभिजीत कुंडु की अगुआई में विश्लेषकों का मानना है कि डीमार्ट के प्रदर्शन के लिए निगरानी योग्य जो प्रमुख कारक होंगे, उनमें बेहतर स्टॉक ब्रोकिंग वाले आम सामान और परिधानों की बिक्री में सुधार, स्थापित स्टोरों/एसएसएस की वृद्धि में सुधार और ऑनलाइन किराना से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की उसकी क्षमता है।

कंपनी की सेम स्टोर सेल्स में वृद्धि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 8.4 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 6.8 फीसदी रह गई।एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में अपेक्षाकृत कम 5.5 फीसदी के आधार के बावजूद वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में एसएसएस वृद्धि 6.8 फीसदी रही।

कोटक सिक्वोरिटीज का मानना है कि पुराने स्टोर और नए स्टोरों के खुलने की धीमी गति भी एसएसएस की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म की गरिमा मिश्रा और इशानी स्वैन बताती हैं कि कुल स्टोरों के अनुपात में डीमार्ट के पुराने स्टोरों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2020 में डीमार्ट के 214 स्टोरों में से



मार्जिन पर दबाव

अवधि	सकल मार्जिन	परिचालन मुनाफा मार्जिन
वि.व. 25, पहली तिमाही	14.9	8.9
वि.व. 25, दूसरी तिमाही	14.2	7.9
वि.व. 25, तीसरी तिमाही	14.1	7.9
वि.व. 25, चौथी तिमाही	13.5	6.8
वि.व. 26, पहली तिमाही	14.6	8.2
वि.व. 26, दूसरी तिमाही	14.2	7.6
आंकड़े : फीसदी में स्रोत : कंपनी, ब्रोकरेज फर्म		

131 तीन साल से अधिक पुराने थे, जो कुल स्टोरों का 61 फीसदी हैं। वित्त वर्ष 2025 में यह अनुपात बढ़कर 68 फीसदी हो गया और आगे भी बढ़ता रह सकता है, जब तक कि कंपनी अपने स्टोरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं करती। उनका कहना है कि पुराने स्टोरों में आमतौर पर एसएसएसजी (सेम स्टोर सेल ग्रोथ) की दर धीमी हो जाती है क्योंकि उनका लक्षित क्षेत्र सीमित हो जाता है और ग्राहकों का खर्च चरम पर पहुंचने लगता है, जिससे नए स्टोर खोलना महत्वपूर्ण हो जाता है।

ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2026-28 के लिए एसएसएस के अपने वृद्धि अनुमानों में कटौती की है। लिहाजा, इस अवधि में राजस्व में 1 से 3 फीसदी और प्रति शेयर आय अनुमानों में 3 से 7 फीसदी की कमी आई है। फर्म ने शेयर पर अपनी बिकवाली रेटिंग बरकरार रखी है और लक्षित कीमत 3,570 रुपये तय की है।

कई ब्रोकरेज फर्मों ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डीमार्ट पर इसके प्रभाव को उजागर किया है। गोल्डमैन सैक्स रिसर्च का अनुमान है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा निकट भविष्य में भी ज्यादा बनी रह सकती है। इससे वृद्धि और मार्जिन पर और असर पड़ सकता है। उसका कहना है कि जिस रफ्तार से क्विक कॉमर्स वृद्धि

कर रही हैं और नए दौरे के फंड जुटा रही हैं, उससे कंपनी के प्रति उसका सतर्क रुख जायाज ठहरता है।क्विक कॉमर्स उद्योग सितंबर 2025 तक शुद्ध ऑर्डर मूल्य (एनओवी) में 12-13 अरब डॉलर का सालाना राजस्व दर्ज कर रहा है जो पिछले 12 महीनों में 100 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2030 के लिए उद्योग का अनुमानित एनओवी 50 अरब डॉलर है, जिसका अर्थ है 40 फीसदी की सालाना वृद्धि।

इसके अलावा, स्विगी ने 1.1 अरब डॉलर तक की पूंजी जुटाने की घोषणा की है। जेप्टो ने 45 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। ब्लिंकइट अपने डार्क स्टोरों की वजह से वित्त वर्ष 2026 के दूसरी तिमाही के 1,816 से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही तक 3,000 तक कर सकती है। अर्णव मित्रा की अगुआई में विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में ब्लिंकइट की सालाना बिक्री एवेन्यू की शुद्ध बिक्री से अधिक होगी। ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण धीमी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2026-28 के दौरान अपने आय अनुमानों में 1 से 3 फीसदी की कटौती की है। फर्म ने 3,425 रुपये की अपरिवर्तित लक्षित कीमत के साथ बिकवाली की रेटिंग दी है।

साल 2025 में 13 फीसदी बढ़ी फंडों की शुद्ध इक्विटी खरीद

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 में म्युचुअल फंडों की शुद्ध इक्विटी खरीद में 13 फीसदी का इजाफा हुआ और 30 दिसंबर तक यह रिकॉर्ड 4.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। खरीद ने 2024 में दर्ज पिछले उच्चतम स्तर 4.3 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है। शेयर बाजार में सुस्ती के बावजूद यह बढ़ाती दरज की गई है। म्युचुअल फंडों की शेयरों की शुद्ध खरीद लगातार पांचवें वर्ष सकारात्मक बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में म्युचुअल फंडों की इक्विटी खरीद में तेजी से बढ़त हुई है। 2023 में 1.7 लाख करोड़ रुपये और 2022 में 1.9 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद के बाद म्युचुअल फंडों का निवेश 2024 में दोगुना से अधिक हो गया था और 2025 में नए शिखर पर पहुंच गया। जानकारों का मानना है कि बाजार में अस्थिरता अधिक रहने के बावजूद म्युचुअल फंड योजनाओं में निरंतर निवेश आने से म्युचुअल फंडों की खरीदारी निरंतर बनी हुई है। खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी और व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) के माध्यम से लगातार मिले निवेश ने पूरे साल म्युचुअल फंडों की शोली भरे रखी।

नई ऊंचाई पर निवेश	
साल	म्युचुअल फंडों की खरीद (ट्रिलियन रु.)
2019	0.5
2020	-0.5
2021	0.8
2022	1.9
2023	1.7
2024	4.3
2025*	4.9
*30 दिसंबर तक स्रोत : सेबी	

फंडों का मजबूत निवेश शेयर बाजारों के अब तक के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खासकर एफपीआई की बिकवाली को देखते हुए। घरेलू संस्थागत निवेशकों (यानी डीआईआई, जिनमें घरेलू म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड आदि शामिल हैं) ने शेयर बाजार में 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

म्युचुअल फंडों की लगातार खरीदारी ने फंडों की इक्विटी होल्टिंग को पहली बार 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पर पहुंचा दिया है।प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के अंत में इक्विटी परिसंपत्तियां 50.6 लाख करोड़ रुपये थीं जो दो साल से थोड़े अधिक समय में दोगुनी हो गई हैं।

अभिषेक कुमार

आज रुपये व बॉन्ड की कमजोर शुरुआत की आशंका

अंजलि कुमार
मुंबई, 4 जनवरी

घरेलू बाजार में डॉलर की लगातार बढ़ती मांग और भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण सोमवार को रुपये की कमजोर शुरुआत हो सकती है। डीलरों ने यह अनुमान जताया है। शॉर्ट पोजिशन अभी भी ऊंची बनी हुई हैं क्योंकि पिछले सत्र में थोड़ी बिकवाली के बाद भी कारोबारी डॉलर की खरीदारी जारी रखे हुए हैं। वेनेजुएला से भारत के तेल आयात में संभावित रुकावटों समेत अन्य वैश्विक घटनाक्रम को लेकर अनिश्चितता ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। बाजार के जानकारों का अनुमान है कि डॉलर के मुकाबले मुद्रा का भाव 90 से 90.50 प्रति डॉलर के बीच रह सकता है। शुक्रवार को स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 90.21 पर बंद हुई थी।

फिनेरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, शुक्रवार को हुई संक्षिप्त बिकवाली को छोड़ दें तो शॉर्ट पोजिशन की अधिकता और घरेलू निवेशकों की निरंतर डॉलर

खरीदारी के कारण रुपया कमजोर दिख रहा है। भारत के लिए मौजूदा संकट के संभावित परिणामों, विशेष रूप से वेनेजुएला से तेल आयात में कमी के जोखिम को लेकर बनी अनिश्चितता भी बाजार की भावना को प्रभावित कर सकती है।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, रुपये के फॉरवर्ड मार्केट में केंद्रीय बैंक की बकाया नेट शॉर्ट डॉलर पोजिशन नवंबर के अंत तक बढ़कर 66.04 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जबकि अक्टूबर के अंत तक यह 63.6 अरब डॉलर थी।

2025 में स्थानीय मुद्रा में 4.74 फीसदी की गिरावट आई और यह एशियाई मुद्राओं में सबसे ब्याज दरें (कैरी ट्रेड पूंजी के प्रमुख स्रोत) और विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की निरंतर निवेश निकासी के कारण हैं, क्योंकि वैश्विक पूंजी ज्यादा प्रतिफल वाले बाजारों की ओर जा रही थी। इस बीच, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के माध्यम से 4.99 लाख करोड़ रुपये तक जुटाने की योजनाओं की घोषणा की है जिससे जनवरी-मार्च तिमाही में बॉन्ड बाजार में आपूर्ति का दबाव फिर से बढ़ने की आशंका है और इस कारण ब्याज दरें ऊंची बनी रह सकती हैं। स्पेड भी व्यापक रहेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि अनुमानित 40,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये की भारी साप्ताहिक आपूर्ति ऐसे समय हो रही है, जब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम है, जिससे मांग सीमित हो रही है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के आपन मार्केट ऑपरेशंस से समय-समय पर मिलने वाले समर्थन के बावजूद एसडीएल और सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों में निकट भविष्य में तेजी की संभावना है।

सोमवार को बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 3 से 4 आधार अंक ज्यादा रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को इसका स्तर 6.60 फीसदी रहा। एक सरकारी बैंक के डीलर ने कहा, तात्कालिक असर यह हो सकता है कि सोमवार को बेंचमार्क बॉन्ड पर यील्ड 3 से 4 आधार अंक तक बढ़ जाए क्योंकि उधार उम्मीद से ज्यादा है।



बाजार
हलचल

निफ्टी के लिए समर्थन का अहम स्तर है 26,150-26,100

भारतीय शेयर बाजारों ने साल की शुरुआत मजबूती के साथ की और निफ्टी ने पिछले सप्ताह नया रिकॉर्ड बनाया। 1 दिसंबर, 2025 को 26,325 के स्तर छूने के बाद सूचकांक एकीकरण के दौर में चला गया और सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव करता रहा। लेकिन कुछ बड़े शेयरों में खरीदारी और दिसंबर तिमाही में बेहतर नतीजों की उम्मीदों ने 50 शेयरों वाले इस बेंचमार्क को सप्ताह के अंत में 1.1 फीसदी की बढ़त के साथ नए उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद की। एसबीआई सिक्वोरिटीज के तकनीकी और डेरेविटिव अनुसंधान प्रमुख सुदीप शाह ने कहा, आगे चलकर सूचकांक 26,500 तक अपनी बढ़त जारी रख सकता है और अल्पावधि में इसका लक्ष्य 26,700 के आसपास हो सकता है। दूसरी ओर, 26,150-26,100 का क्षेत्र समर्थन का तात्कालिक स्तर हो सकता है।

आईपीओ के लिए सुस्त सप्ताह

इस सप्ताह भी आर्थिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार में सुस्ती छाई रहेगी। भारत कोकिंग कोल और अमागी मीडिया लैम्ब्स की आईपीओ घोषणाओं को छोड़कर इस सप्ताह कोई आईपीओ नहीं आएगा। एक बैंकर ने कहा, कंपनियां बाजार में उतरने पर विचार कर रही हैं, लेकिन हमें कुछ ही बड़े आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। आईपीओ लाने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को मनचाहा मूल्यंकन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, इस महीने की समस्या यह है कि बजट से पहले आईपीओ को पूरा करना जरूरी है।

नई ऊंचाई पर औसत खुदरा निवेश

म्युचुअल फंडों (एमएफ) में व्यक्तिगत निवेशकों की औसत होल्टिंग (जो 2025 में बढ़ती रही है) करीब 2 लाख रुपये के करीब पहुंच गई है। नवंबर 2025 तक औसत होल्टिंग का मूल्य 1.94 लाख रुपये था, जबकि वर्ष की शुरुआत में यह 1.88 लाख रुपये था। शेयर बाजार में सुस्ती के बावजूद औसत निवेश में यह उछाल आया है, जिसने एमएफ योजनाओं में कुल निवेश को प्रभावित किया है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएफ़ी) के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 30 अग्रणी शहरों (टी-30) के निवेशक निवेश के मामले में अन्य शहरों की तुलना में काफी आगे हैं।

संकलन : अभिषेक कुमार और सुंदर सेतुरामन

eClerx

eClerx Services Limited

Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319

Registered Office and Correspondence Address: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023, Maharashtra, India.

Phone No.: +91 22 6614 8301 • Fax No.: +91 22 6614 8655

Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, VP- Legal & Company Secretary

Email Id: investor@eclerx.com • Website: www.eclerx.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ECLERX SERVICES LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the “**Post Buy Back Public Announcement**”) is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (“**SEBI Buy Back Regulations**”) regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated December 5, 2025 published on December 6, 2025 (“**Public Announcement**”), addendum to public announcement dated December 16, 2025 published on December 17, 2025 (“**Addendum**”) and the letter of offer dated December 18, 2025 (“**Letter of Offer**”), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- BUY BACK**
 - eClerx Services Limited (the “**Company**”) had announced the Buy Back of up to 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each of the Company (“**Equity Shares**” or “**Shares**”), at a price of ₹ 4,800/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of up to ₹ 3,000 Million (Rupees Three Thousand Million only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 21.08% and 13.80% of the aggregate of Company’s fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2025 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism, on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.
 - The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the “Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange” notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force. The Buy Back was implemented on BSE Limited.
 - The Buy Back Opening Date was Monday, December 22, 2025 and the Buy Back Closing Date was Monday, December 29, 2025.
- DETAILS OF THE BUY BACK**
 - The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares, at the price of ₹ 4,800/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred Only) per Equity Share.
 - The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 3,000 Million (Rupees Three Thousand Million Only), excluding Transaction Costs.
 - The Registrar to the Buy Back i.e. KFin Technologies Limited (“**Registrar**”), considered a total of 1,802 valid bids for 1,311,679 (One Million Three Hundred Eleven Thousand Six Hundred Seventy Nine) Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 2.10 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No. of valid Bids	Total no. of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	93,750	1,448	19,992	21.32
General category for all other Eligible Shareholders	531,250	354	1,291,687	243.14
Total	625,000	1,802	1,311,679	209.87
 - All valid bids were considered for the purpose of acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Friday, January 2, 2026 (by email where the email id is registered with the Company or the depositories).
 - The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited (“**Clearing Corporation**”) on Friday, January 2, 2026. The Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder was transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders.
 - Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company’s demat account on Friday, January 2, 2026. No Equity Shares were tendered in physical form. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders/custodians by release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Friday, January 2, 2026.
 - The extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted under the Buy Back, comprising of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares in dematerialized form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy Back Regulations, on or before Tuesday, January 13, 2026.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**
 - The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
A	AUTHORISED SHARE CAPITAL	
	100,000,000 Equity shares of ₹ 10/- each	1,000,000,000
B	ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL BEFORE THE BUY BACK*	
	47,650,359 Equity shares of ₹ 10/- each	476,503,590
C	ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL AFTER THE BUY BACK*	
	47,025,359 Equity shares of ₹ 10/- each	470,253,590

*As on the Record date

*Subject to extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted in the Buy Back

- Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*
1.	HDFC Mutual Fund (Multiple Schemes)	1,86,050	29.77	0.40
2.	Bandhan Small Cap Fund	1,25,096	20.02	0.27
3.	Ashoka Whiteoak ICAV - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund	57,059	9.13	0.12
4.	Mahindra Manulife Small Cap Fund	33,278	5.32	0.07
5.	ICICI Prudential Smallcap Index Fund	31,425	5.03	0.07
6.	Baroda BNP Paribas Small Cap Fund	26,564	4.25	0.06
7.	Whiteoak Mutual Fund (Multiple Schemes)	24,986	4.00	0.05
8.	Schroder International Selection Fund Indian Opportunities	24,149	3.86	0.05
9.	Bajaj Life Insurance Limited	16,211	2.59	0.03
10.	Trust Mutual Fund - Trust MF Small Cap Fund	12,151	1.94	0.03
11.	CAISSE DE Depot ET Placement DU Quebec Institutional Asset Management BV	8,582	1.37	0.02
12.	AL Mehwar Commercial Investment L.L.C. - (Whiting)	8,378	1.34	0.02
13.	Axis Mutual Fund (Multiple Schemes)	8,210	1.31	0.02
14.	Public Employees Retirement System of OHIO	6,564	1.05	0.01

*Subject to extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted in the Buy Back.

- The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e. as of the Record Date, being Wednesday, December 17, 2025) and post the completion of the Buy Back is as follows:

Particulars	Pre Buy Back*		Post Buy Back*	
	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares
Promoter and Promoter Group	25,640,350	53.81	25,640,350	54.52
Financial Institutions/Banks/AIFs and Mutual Funds	11,462,933	24.06		
Foreign Investors (including Non Resident Indians/FPI/Foreign Nationals/Foreign Bodies Corporate etc.)	532,409	1.12	21,385,009	45.48
Others (public, public body corporates, trust etc.)	10,014,667	21.02		
TOTAL	47,650,359		100.00	47,025,359

* As on the Record date

*Subject to extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted in the Buy Back

- MANAGER TO THE BUY BACK**

Emkay

Your success is our success

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Contact Person: Mr. Deepak Yadav/Ms. Heena Sharma

Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028, Maharashtra, India.

Tel. No.: +91 22 66121212; **Fax No.:** +91 22 66121299

Email id: eclerx.buyback@emkayglobal.com

Website: www.emkayglobal.com

SEBI Regn. No.: INM000011229

Validity Period: Permanent

CIN: L67120MH1995PLC084899


5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company (“**Board**”) accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board in terms of the resolution passed by the Board on October 24, 2025 and by the Buy Back Committee on January 2, 2026.

For and on behalf of the Board of Directors of eClerx Services Limited		
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kapil Jain Managing Director & Group CEO DIN: 10170402 Place: London	Amit Majmudar Non-Executive Independent Director DIN: 00565425 Place: Mumbai	Pratik Bhanushali VP- Legal & Company Secretary (ICSI Membership No.: F8538) Place: Mumbai

Date: January 2, 2026



दी फिनिक्स मिल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ४६२ सेनापती बाघट मार्ग लोअर पॅरेल मुंबई - ४०० ०१३.
सीआयएच : L17100MH1905PLC000200 दूर. : +९१ २२ ३००१ ६६००
ई-मेल : investorrelations@phoenixmills.com वेबसाइट : www.thephoenixmills.com

भागधारकांना सूचना

कागदपत्री शोअर्सची हस्तांतरण विनंती पुन्हा दाखल करण्याकरिताची स्पेशल विन्डो

सेबी परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/एचआयआयएसडी/एचआयआयएसडी-पीओडी/पी/सीआयआय/२०२५/१७ दि. ०२.०७.२०२५ अंतर्गत घातिलेले प्रकल्पी कृपया नोंद घ्यावी की दी फिनिक्स मिल्स लिमिटेडचे हस्तांतरण करार पुन्हा दाखल करण्याकरिताची स्पेशल विन्डो दि. ०६.०१.२०२६ पर्यंत खुली राहिल.

सदर सुविधा ही हस्तांतरण करार विनंती दि. ०१.०४.२०१९ पुर्वी दाखल करण्यातआली होती आणि दलावेज/प्रक्रिया यांतील कमतरता व/वा अन्य कारणास्तव रद्द झाली/परत आली/दुर्लक्षित झाली असल्यासच दि. ०७.०७.२०२५ ते दि. ०६.०१.२०२६ पर्यंत उपलब्ध असेल.

सदर सुविधा प्राप्त करावयाची असल्यास कृपया कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट अर्थात एमयूएफजी इन्टरास इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना त्यांचे कार्यालय पत्ता सी १०१ एम्बेसी २७७ पार्क एलबीएस मार्ग विक्रोळी (पश्चिम) मुंबई -४०० ०८३ येथे संपर्क साधावा.

हस्तांतरणाकरिता पुन्हा दाखल करण्यात आलेले शेअर्स मंजूर घाल्यास ते केवळ डीमॅट स्वरूपातच विवरीत करण्यात येतील. असे हस्तांतरण तथा डीमॅट विनंतीकरिता योग्य ती प्रक्रिया चार पाडवी.

पुढील माहितीकरिता कृपया लिंक SEBI Circular येथे संपर्क साधावा किंवा investorrelations@phoenixmills.com येथे ई-मेल पाठवावा.

दी फिनिक्स मिल्स लिमिटेड करिता
सहो
भाषिक गणना
कंपनी सचिव
सहायदत्व क्र. एफ८६७१

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०२.०१.२०२६

सहायदत्व क्र. एफ८६७१

जाहिर सूचना

सूचित करण्यात येते की, खालीलप्रमाणे वर्णन केलेल्या परिशिष्टातील मालमतेच्या हक्काची चौकशी मी करीत असून सदर मालमता **श्रीम. प्रीती दीपक शाह** यांच्या मालकीची आहे.

सर्व व्यक्तींना याद्वारे विनंती करण्यात येते की, सदर मालमतेबाबत विक्री, देवाणघेवाण, तारणहक्क, देणगी, न्यास, भार, देवघाल, वारसा, ताबा, भाडेपट्टा, धारणाधिकार अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे कोणताही दावा, हक्क, हितसंबंध किंवा आक्षेप असल्यास, त्यांनी या जाहिर सूचनेच्या दिनांकापासून **१४ दिवसांच्या** आत, लेखी स्वरूपात योग्य दस्तऐवजी पुराव्यासह अधोहस्ताक्षरी यांच्याकडे सादर करावा; अन्यथा, अशा व्यक्ती/व्यक्तींचा दावा कायमस्वरूपी त्यागलेला / परित्यक्त / सोडून दिलेला समजण्यात येईल व त्यानंतर तो कोणत्याही प्रकारे स्वीकारला जाणार नाही.


मालमतेच्या परिशिष्ट

(i) **सर्व ते निवासी फ्लॅट क्र. ५०१, अंदाजे ४२५ चौ. फूट कार्पेट क्षेत्रफळ असलेला, इमारतीतील ५ वा मजला येथे स्थित, महावीर व्हिल** ए वा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीपासून असलेला (यापुढे **“सदर फ्लॅट”** म्हणून संदर्भित), मुंबई शहर व मुंबई उपनगर नोंदणी जिल्ह्यातील कॅंडरुल सहर्ष क्र. ५३४ या जमिनीवर बांधलेला, भंडारकर रोड, माटुंगा पूर्व, मुंबई ४०००१९ येथे स्थित असून; (ii) प्रत्येकी रुपये पन्नास अंकित मूल्य असलेले पूर्णपणे भरलेले दहा (१०) समभाग, शेअर प्रमाणपत्र क्र. १६, दिनांक २३ मार्च, २०२५, अन्यत्वे निर्गमित, वैशिष्ट्यांकित क्र. १५१ ते १६० (दोन्ही समावेशक) असलेले, **“महावीर व्हिल को-ऑपरेटिव्ह ह्रासिंग सोसायटी लिमिटेड”** यांनी निर्गमित केलेले, नोंदणी क्र. एमयूएम/डब्ल्यू.एफ.-एम/एचएसजी/(टीसी)/१९६०/२०२४-२०२५ धारण करणारे.

दिनांक : ५ जानेवारी, २०२६

वी१०१, शांती निकेतन, ३२२, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, माटुंगा (पूर्व), मुंबई ४०००१९. | ई-मेल : hdsah22@gmail.com

अॅडव्होकेट हर्षित शाह



MUTUAL FUND

NOTICE NO. 1/2026

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (‘IDCW’) under Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund

Notice is hereby given that Mahindra Manulife Trustee Private Limited, Trustee to Mahindra Manulife Mutual Fund (‘the Fund’), has approved the declaration of IDCW under Monthly IDCW Option(s) of Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund, an open ended hybrid scheme investing predominantly in equity and equity related instruments (‘‘the Scheme’’) as per the details given below:

Plan(s)/Option(s)	Quantum of IDCW #(Rs. per unit)	Record Date*	Face Value (Rs. per unit)	NAV as on January 2, 2026 (Rs. per unit)
Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.18	January 07, 2026	10	20.1212
Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.18		10	23.1555

*As reduced by the amount of applicable statutory levy. Distribution of the above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

*If in any case the Record Date falls on a non-business day, the immediately following business day shall be deemed to be the Record Date.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the Scheme/Plan(s) would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

All Unit holders / Beneficial Owners under the IDCW Option(s) of the abovementioned Scheme/ Plan(s) whose names appear in the records of the Registrar, Computer Age Management Services Ltd. / Statement of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as applicable, as at the close of the business hours on the Record Date shall be eligible to receive the IDCW.


With regard to Unit holders under the IDCW Option(s) of the abovementioned Scheme/ Plan(s), who have opted for IDCW Reinvestment facility, the IDCW due will be reinvested by allotting units for the IDCW amount (on the next Business Day after the Record Date) at a price based on the prevailing ex-IDCW NAV per unit on the Record Date.

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited

Place: Mumbai
Date: January 4, 2026

Sd/
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



KRISHIVAL FOODS LIMITED

Registered Office: 1309, Lodha Supremus Powai, Saki Vihar Road, Opp. MTNL Office, Powai, Mumbai City, 400 072 Maharashtra, India; **Tel:** +91 8779558264

Contact Person: Rahul Suresh Gawande, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail: cs@krishival.com; **Website:** www.krishival.com

Corporate Identity Number: L74120MH2014PLC254748

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

RIGHT ISSUE CLOSING DATE EXTENDED TO WEDNESDAY, 07 JANUARY, 2026

ISSUE OF UP TO 3,333,160* PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (“THE RIGHTS EQUITY SHARES”) FOR CASH AT A PRICE OF ₹300.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹290.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE) (“THE ISSUE PRICE”) AGGREGATING TO ₹ 9,999.48 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 45 (FORTY FIVE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 301 (THREE HUNDRED AND ONE) FULLY PAIDUP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE “EQUITY SHARES”) HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON DECEMBER 17, 2025 (“RECORD DATE”) (THE “ISSUE”). FOR FURTHER DETAILS, SEE “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 67 OF THE LETTER OF OFFER.

**Assuming full subscription and receipt of all Calls Monies with respect to Rights Equity Shares.*

THIS ADDENDUM (THE “ADDENDUM”) SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THE LETTER OF OFFER DATED DECEMBER 15, 2025. CAPITALISED TERMS USED IN THIS ADDENDUM AND NOT DEFINED HEREIN SHALL HAVE THE SAME MEANING AS ASCRIBED IN THE LETTER OF OFFER. EQUITY SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO NOTE THE FOLLOWING CHANGES /AMENDMENT TO THE LETTER TO OFFER.

1. This Right Issue Committee has approved the extension of the issue period of the Rights Issue, taking into account the holiday season, with a view to providing eligible shareholders an adequate opportunity to exercise their rights under the Right Issue. Please note that the Eligible shareholders will be able to participate in the Rights Issue till January 07, 2026.

2. Accordingly there is no change in the Letter of Offer, except for the following dates:

Sr. No.	Activity	Original Schedule	Revised Schedule
		Day & Date	Day & Date
1.	Last Date For Credit Of Rights Entitlements	Wednesday, December 24, 2025	Wednesday, December 24, 2025
2.	Issue Opening Date	Friday, December 26, 2025	Friday, December 26, 2025
3.	Last Date for on Market Renunciation of Rights Entitlements	Wednesday, December 31, 2025	Wednesday, December 31, 2025
4.	Date of Closure of Off - Market Transfer of Rights Entitlements*	Friday, January 02, 2026	Tuesday, January 06, 2026
5.	Issue Closing Date**	Monday, January 05, 2026	Wednesday, January 07, 2026
6.	Date of Finalisation of Basis of Allotment	Tuesday, January 06, 2026	Thursday, January 08, 2026
7.	Date of Allotment	Wednesday, January 07, 2026	Thursday, January 08, 2026
8.	Date of Credit of Rights Equity Shares	Wednesday, January 07, 2026	Friday, January 09, 2026
9.	Date of Listing (Tentative)	Wednesday, January 07, 2026	Monday, January 12, 2026

* Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat accounts of the Renounees on or prior to the Issue Closing Date.

** Our Board or the Rights Issue Committee will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

Except as detailed in this Addendum, all other information and terms of Rights Issue as disclosed in the Letter of Offer remain unchanged. A copy of this Addendum will also be available on the websites of the Company, the Registrar to the Rights Issue and the Stock Exchanges respectively.

FOR KRISHIVAL FOODS LIMITED
On behalf of the Rights Issue Committee

Sd/-
Rahul Suresh Gawande
Company Secretary and Compliance Officer

Date : January 02, 2026
Place : Mumbai

eClerx

eClerx Services Limited

Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319

Registered Office and Correspondence Address: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023, Maharashtra, India.

Phone No.: +91 22 6614 8301 • **Fax No.:** +91 22 6614 8655

Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, VP- Legal & Company Secretary

Email Id: investor@eclerx.com • **Website:** www.eclerx.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ECLERX SERVICES LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the “**Post Buy Back Public Announcement**”) is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (“**SEBI Buy Back Regulations**”) regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated December 5, 2025 published on December 6, 2025 (“**Public Announcement**”), addendum to public announcement dated December 16, 2025 published on December 17, 2025 (“**Addendum**”) and the letter of offer dated December 18, 2025 (“**Letter of Offer**”), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. **BUY BACK**

1.1. eClerx Services Limited (the “**Company**”) had announced the Buy Back of up to 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each of the Company (“**Equity Shares**” or “**Shares**”), at a price of ₹ 4,800/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of up to ₹ 3,000 Million (Rupees Three Thousand Million only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 21.08% and 13.80% of the aggregate of Company’s fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2025 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism, on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.

1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the “Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange” notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR/II/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force. The Buy Back was implemented on BSE Limited.

1.3. The Buy Back Opening Date was Monday, December 22, 2025 and the Buy Back Closing Date was Monday, December 29, 2025.

2. **DETAILS OF THE BUY BACK**

2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares, at the price of ₹ 4,800/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred Only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 3,000 Million (Rupees Three Thousand Million Only), excluding Transaction Costs.

2.3. The Registrar to the Buy Back i.e. KFin Technologies Limited (“**Registrar**”), considered a total of 1,802 valid bids for 1,311,679 (One Million Three Hundred Eleven Thousand Six Hundred Seventy Nine) Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 2.10 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No. of valid Bids	Total no. of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	93,750	1,448	19,992	21.32
General category for all other Eligible Shareholders	531,250	354	1,291,687	243.14
Total	625,000	1,802	1,311,679	209.87

2.5. All valid bids were considered for the purpose of acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Friday, January 2, 2026 (by email where the email id is registered with the Company or the depositories).

2.6. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited (“**Clearing Corporation**”) on Friday, January 2, 2026. The Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder was transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders.

2.7. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company’s demat account on Friday, January 2, 2026. No Equity Shares were tendered in physical form. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders/custodians by release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Friday, January 2, 2026.

2.8. The extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted under the Buy Back, comprising of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares in dematerialized form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy Back Regulations, on or before Tuesday, January 13, 2026.

3. **CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**

3.1. The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
A	AUTHORISED SHARE CAPITAL	
	100,000,000 Equity shares of ₹ 10/- each	1,000,000,000
B	ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL BEFORE THE BUY BACK*	
	47,650,359 Equity shares of ₹ 10/- each	476,503,590
C	ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL AFTER THE BUY BACK*	
	47,025,359 Equity shares of ₹ 10/- each	470,253,590

*As on the Record date
*Subject to extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted in the Buy Back

3.2. Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*
1.	HDFC Mutual Fund (Multiple Schemes)	1,86,050	29.77	0.40
2.	Bandhan Small Cap Fund	1,25,096	20.02	0.27
3.	Ashoka Whiteoak ICAV - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund	57,059	9.13	0.12
4.	Mahindra Manulife Small Cap Fund	33,278	5.32	0.07
5.	ICICI Prudential Smallcap Index Fund	31,425	5.03	0.07
6.	Baroda BNP Paribas Small Cap Fund	26,564	4.25	0.06
7.	Whiteoak Mutual Fund (Multiple Schemes)	24,986	4.00	0.05
8.	Schroder International Selection Fund Indian Opportunities	24,149	3.86	0.05
9.	Bajaj Life Insurance Limited	16,211	2.59	0.03
10.	Trust Mutual Fund - Trust MF Small Cap Fund	12,151	1.94	0.03
11.	CAISSE DE Depot ET Placement DU Quebec Institutional Asset Management BV	8,582	1.37	0.02
12.	AL Mehwar Commercial Investment L.L.C. - (Whiting)	8,378	1.34	0.02
13.	Axis Mutual Fund (Multiple Schemes)	8,210	1.31	0.02
14.	Public Employees Retirement System of OHIO	6,564	1.05	0.01


*Subject to extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted in the Buy Back.

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e. as of the Record Date, being Wednesday, December 17, 2025) and post the completion of the Buy Back is as follows:

Particulars	Pre Buy Back*		Post Buy Back*	
	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares
Promoter and Promoter Group	25,640,350	53.81	25,640,350	54.52
Financial Institutions/Banks/AIFs and Mutual Funds	11,462,933	24.06		
Foreign Investors (including Non Resident Indians/FPI/Foreign Nationals/Foreign Bodies Corporate etc.)	532,409	1.12	21,385,009	45.48
Others (public, public body corporates, trust etc.)	10,014,667	21.02		
TOTAL	47,650,359	100.00	47,025,359	100.00

* As on the Record date
*Subject to extinguishment of 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) Equity Shares accepted in the Buy Back

4. **MANAGER TO THE BUY BACK**



Your success is our success

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Contact Person: Mr. Deepak Yadav/ Ms. Heena Sharma

Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028, Maharashtra, India.

Tel. No.: +91 22 66121212; **Fax No.:** +91 22 66121299

Email id: eclerx.buyback@emkayglobal.com

Website: www.emkayglobal.com

SEBI Regn. No.: INM000011229

Validity Period: Permanent

CIN: L67120MH1995PLC084899

5. **DIRECTORS RESPONSIBILITY**

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company (“**Board**”) accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board in terms of the resolution passed by the Board on October 24, 2025 and by the Buy Back Committee on January 2, 2026.

For and on behalf of the Board of Directors of eClerx Services Limited		
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kapil Jain Managing Director & Group CEO DIN: 10170402 Place: London	Amit Majmudar Non-Executive Independent Director DIN: 00565425 Place: Mumbai	Pratik Bhanushali VP- Legal & Company Secretary (ICSI Membership No.: F8538) Place: Mumbai

Date: January 2, 2026